## **Commercial Engineers & Body Builders Co Limited**



CIN-L28100MP1979PLC049375

Regd. Office: 48, Vandana Vihaar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) INDIA Email Id - cs@cebbco.com, Website - www.cebbco.com, Tel - 0761-2661336

Date – 17 December 2021

To,

Listing Department, **BSE** Limited,

Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street.

Mumbai - 400 001

Fax No. 022-2272 3121/2272/2037

**BSE Security Code:** 533272

To,

Listing Department,

National Stock Exchange of India Limited,

'Exchange Plaza', 5<sup>th</sup> Floor, Plot No. C/1, G. Block.

Bandra Kurla Complex, Bandra (East)

Mumbai - 400 051

**NSE Symbol:** CEBBCO

Dear Sir/ Madam,

Sub.: Newspaper advertisement intimating about the date of hearing of petition fixed by the Hon'ble National Company Law Tribunal ("NCLT") by way of its order in relation to the sanction of the Scheme of Amalgamation (as defined below).

Ref: Scheme of Amalgamation of Jupiter Wagons Limited into and with Commercial Engineers & Body Builders Co Limited ("CEBBCO") under Sections 230 - 232 of the Companies Act, 2013, other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and other rules and regulations framed thereunder ("Scheme of Amalgamation").

This is in continuation to our intimation dated 28 September 2020 and subsequent communications with respect to the Scheme of Amalgamation. In this regard, we would like to inform that CEBBCO had filed a petition with the Hon'ble National Company Law Tribunal, Indore Bench at Ahmedabad ("Petition") for sanction of the Scheme of Amalgamation and the Petition has been admitted by the Hon'ble NCLT.

We would further like to inform that the petition is fixed for further consideration on Thursday, 13 January 2022 before the Hon'ble NCLT at 10.30 A.M. or soon thereafter.

As per the directions of the Hon'ble NCLT by way of its order in relation to the Scheme of Amalgamation, CEBBCO has duly advertised the notice of hearing of the Petition in two newspapers viz. Financial Express (English daily) and Raj Express (Hindi daily) today, i.e., on 17 December 2021 calling for objection if any on or before the date of hearing (i.e., Thursday, 13 January 2022). The newspaper clippings are enclosed for your information and records.

We request you to kindly take the above on record.

Yours faithfully,

For Commercial Engineers & Body Builders Co Limited

Deepesh Kedia **Company Secretary** 

Factory (Unit I) : 21,22,33,34, Industrial Area Richhai, Jabalpur - 482010 M.P.,

Factory (Unit II) : NH12-A, Village Udaipura, Teh. Niwas, Distt. Mandla - 481661 M.P.,

Factory (Unit III) : Plot No. 690 to 693 & 751 to 756, Sector III, Industrial Area, Pithampur, Distt. Dhar,

Factory (Unit IV) : Industrial Area Richhai, Jabalpur - 482010 M.P.

Factory (Unit V) : Plot No. 742, Asangi Phase Area, Saraikela, Jharkhand – 932109,

Factory (Unit VI) : 118, Village Imlai, Near Deori Railway Station, P.O. Panagar, Jabalpur - 483220

Commercial Engineers & Body Builders Co Ltd. CIN: L28100MP1979PLC049375 Regd. office: 48, Vandana Vihar, Narmada Road. Gorakhpur, Jabalpur (M.P.) India - 482001

FORM NO.NCLT. 3A

Advertisement detailing petition [See Rule 35]

Before National Company Law Tribunal, Indore Bench C.P.(CAA)/8(MP)2021 connected with C.A. (CAA)/8(MP) 2021

In the matter of: The Companies Act, 2013 - Sections 230 to 232 of the said Act and Rules made thereunder

COMMERCIAL ENGINEERS & BODY BUILDERS CO LIMITED, having

CIN-L28100MP1979PLC049375 a Company incorporated under the Companies Act, 1956 and having its registered office at 48, Vandana Vihar, Narmada Road, Gorakhpur, Jabalpur - 482001, Madhya Pradesh. ...Applicant/ Transferee/Amalgamated Company

JUPITER WAGONS LIMITED, having CIN-U35202WB2006PLC110822

a Company incorporated under the Companies Act, 1956 and having its registered office at 4/2, Middleton Street Kolkata - 700071, West Bengal. ....Transferor/Amalgamating Company

Notice of Petition

A petition under section 230 to 232 of the Companies Act, 2013 for sanction of the Scheme of Amalgamation as contemplated between Commercial Engineers & Body Builders Co Limited ("Applicant/ Transferee/Amalgamated Company") and Jupiter Wagons Limited ("Transferor / Amalgamating Company") was presented by the Applicant Company as aforesaid on the 18" day of November 2021 and the said petition is fixed for hearing before the Indore Bench of National Company Law Tribunal on 13" January, 2022. Any person desirous of supporting or opposing the said petition should send to the Petitioner's Authorised Representatives, notice of his intention, signed by him or his Authorised Representatives, with his name and address, so as to reach the petitioner's Authorised Representatives not later than two days before the date fixed for the hearing of the petition. Where he seeks to oppose the petition, the grounds of opposition or a copy of his affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same.

CS Chetan Patel

Authorised Representative of Applicant Company as above mentioned. Address: 301, Akshar Stadia, Opp. Symphony House, B/H Armieda Cosmetic Centre, Off S.G.Highway, Bodakdev, Ahmedabad-380059

Dated: 17.12.2021

Whereas.

receipt of the notice



E-mail: leagal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com Website: www.kangrabank.com APPENDIX IV

[See rule 8(1)]

POSSESSION NOTICE (For immovable property)

The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd." Head office at, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058 having its registered office at 1916, Chuna Mandi, Pahar Gani, New Delhi-110055, under The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule [3] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Bank had issued a demand notice on dated 17-02-2021 calling upon the borrower & Mortgagor Sh. Madan Mohan Sharma S/o. Late Sh.K.L.Sharma R/o. D-55/LG-6, Dilshad Colony, Delhi-110095 also at Sh. Madan Mohan Sharma S/o. Late Sh. K.L. Sharma C/o. M/s Universal Property O-15/A-4, Dilshad Garden, Delhi-110095, to repay the amount mentioned in the notice being ₹21,14,618/- (Rupees Twenty One Lakhs Fourteen Thousand Six Hundred and Eighteen Only), together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of the notice till the date of payment, with in 60 days from the date of

The above mentioned borrower & mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, mortgagor and the public in general that the Bank has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred under sub-section (4) of section 13 of. The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with rule [8] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on this 15" day of December' 2021.

The borrower&mortgagorin particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the mortgaged property and any dealings with the property will be subject to the charge of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", for an amount of ₹21,14,618/together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of notice till the date of realization together with all the costs incurred by the Bank in realizing the said amount.

The borrower & mortgagorattention is also been invited towards provisions o Sub-Section (8) of Section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of time available, to redeem the below mentioned mortgaged property/Secured Asset,

**DESCRIPTION OF THE PROPERTY** 

The property under

consideration is a Built up DDA Janta Flat at Ground Floor.

All the part and parcel of the DDA JANTA FLAT NO. 4A, GROUND FLOOR, IN PKT.-15, IN THE LAYOUT PLAN OF HOUSING ESTATE AT DILSHAD GARDEN.

(HARISH SHARMA) AUTHORISED OFFICER THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. HEAD OFFICE AT. C-29, COMMUNITY CENTRE.

PANKHA ROAD, JANAKPURI, NEW DELHI-58 DATED: 15.12.2021 Phone, 9013568419, 9810487548 THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD.

C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058

Phone: 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044 E-mail: leagal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com Website: www.kangrabank.com

APPENDIX IV

[See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE

(For immovable property)

The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd." Head office at, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058 having its registered office at 1916, Chuna Mandi, Pahar Ganj, New Delhi-110055, under The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule [3] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Bank had issued a demand notice on dated11-11-2019 calling uponthe borrowe Sh. Parmod Paswan S/o. Sh. Anup Paswan R/o. H. No. 63-B, Patparganj Village, Gharonda NeemKa Banger, Mayur Vihar Phase-I, Delhi-110091, and calling upon the mortgagor & surety Smt. Shakuntla Devi W/o. Sh. Parmod Paswan R/o. H.No. 63-B, Patparganj Village, Gharonda NeemKa Banger, Mayur Vihar Phase-I, Delhi-110091, to repay the amount mentioned in the notice being ₹8,04,564/- (Rupees Eight Lakhs Four Thousand Five Hundred and Sixty Four Only), together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of the notice till the date of payment, with in 60 days from the date of receipt of the notice.

The above mentioned borrower, mortgagor & surety having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, mortgagor, Surety and the public in general that the Bank has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred under sub-section (4) of section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with rule [8] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on this 15thday of December 2021.

The borrower, mortgagor & surety in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the mortgaged property and any dealings with the property will be subject to the charge of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", for an amount of ₹8,04,564/- together with further interest, penal interest and other charges as are

applicable to this Loan account from time to time, from the date of notice till the date of realization together with all the costs incurred by the Bank in realizing the said amount. The borrower, mortgagor& surety attention is also been invited towards provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of time available, to redeem the below mentioned mortgaged property/Secured Asset.

**DESCRIPTION OF THE PROPERTY** 

The property under All the part and parcel of the BUILT UP PROPERTY

consideration is the Entire | BEARING MUNICIPAL NO. 63, MEASURING AREA Built up property with the 76 SQ. YDS., WITH THE RIGHT OF UPPER rights of upper construction | CONSTRUCTION UPTO THE LAST STOREY, upto the last storey, area SITUATED IN THE LAY OUT PLAN OF GHARONDA Measuring 76 Sq. Yds. NEEM KA BANGAR NOW KNOWN AS P ATPARGANJ PURANI ABADI, SHAHDARA

DELHI-110092. Falling Under the Registration of Sub-Registrar-VIII, Delhi.

Which is bounded as Under:-

DELHI.

DATED: 15.12.2021

EAST: PROPERTY OF KALE/DESHA.

: PROPERTY OF SANJAY AND CHARAN SINGH & ROAD. WEST NORTH: PROPERTY OF NET RAM.

SOUTH: FACTORY AND PROPERTY OF SANJAY.

(MEENAKSHI VATS) **AUTHORISED OFFICER** THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD.

HEAD OFFICE AT, C-29, COMMUNITY CENTRE PANKHA ROAD, JANAKPURI, NEW DELHI-58. Phone No.9013568418,9013568419.

FORM A PUBLIC ANNOUNCEMENT (Regulation 14 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Voluntary Liquidation Process) Regulations, 2017)

FOR THE ATTENTION OF THE STAKEHOLDERS OF

MIRCHI ARTS PRIVATE LIMITED MIRCHI ARTS PRIVATE LIMITED Name of the Corporate Person

Date of Incorporation of Corporate Person 14th October 2005

Authority under which Corporate Person is Ministry of Corporate Affairs, Registrar of Incorporated/Registered Companies (ROC)- Delhi

Corporate Identity Number/Limited Liability | U74999DL2005PTC141741 Identity Number of Corporate Person

Address of the Registered office and G-76 Sujan Singh Park New Delhi Principal office (if any) of Corporate Person | 110003 IN

Liquidation Commencement date of 13th December 2021 Corporate Person Name, Address, Email Address, Telephone Name: Arun Gupta

Number and the Registration Number of the Regd. Address: S-34, LGF, Greater Kailash II, New Delhi 110048 Liquidator Regd. Email: arungupta2211@gmail.com Communication Email: mirchi.vol.lig@gmail.com Telephone Number: 011-41066313 Registration Number: IBBI/IPA-002/IP N00051/2016-17/10095

12th January, 2022

Notice is hereby given that the "Mirchi Arts Private Limited" has commenced voluntary liquidation on -13th December 2021.

The stakeholders of "Mirchi Arts Private Limited" are hereby called upon to submit a proof of their claims, on or before 12th January, 2022to the Liquidator at the regd. address as mentioned against Item No. 7

The Financial Creditors shall submit their proof of claims by electronic means only. All other stakeholders may submit the proof of claims in person, by post or by electronic means. Proof of claim is to be submitted by way of specified forms and documentary proof in support of claim, as prescribed under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and regulations made thereunder. The relevant forms and declarations can be downloaded from the website i.e. www.ibbi.gov.in.

Submission of false or misleading proofs of claims shall attract penalties.

Place: New Delhi Dat: 15th December 2021

8 Last date for submission of claims

Arun Gupta Liquidator



THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone: 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044

E-mail: leagal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com Website: www.kangrabank.com

APPENDIX IV [See rule 8(1)]

POSSESSION NOTICE (For immovable property)

The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd." Head office at, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058 having its registered office at 1916, Chuna Mandi, Pahar Ganj, New Delhi-110055, under The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule [3] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Bank had issued a demand notice on dated18-02-2021 calling upon the borrower & Mortgagor Smt. Sunita Sharma W/o. Sh. Mahesh Sharma R/o. H. No.16, Chawla Park, Krishna Nagar, Delhi-110051 also at Smt. Sunita Sharma W/o. Sh.Mahesh Sharma C/O. M/s Friends Test Food, 141, South Anarkali, Jagatpuri, Delhi-110051, to repay the amount mentioned in the notice being ₹10,48,505/- ( Rupees Ten Lakhs Forty Eight Thousand Five Hundred and Five Only), together with further interest, penal interest, and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of the notice till the date of payment, with in 60 days from the date of receipt of the notice. The above mentioned borrower& mortgagorhaving failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, mortgagor, and the public in general that the Bank has

conferred under sub-section (4) of section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with rule [8] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on this 15th day of December' 2021. The borrower&mortgagorin particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the mortgaged property and any dealings with the property will be subject to the charge of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", for an amount of ₹10,48,505/together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this

taken possession of the property described here in below in exercise of powers

with all the costs incurred by the Bank in realizing the said amount. The borrower & mortgagorattention is also been invited towards provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of time available, to redeem the below mentioned mortgaged property/Secured Asset.

Loan account from time to time, from the date of notice till the date of realization together

# DESCRIPTION OF THE PROPERTY

The property under consideration is the Entire Built up Residential property with the rights of construction upto sky high, area Measuring 40 Sq. Yds.

All the part and parcel of the BUILT-UP PORTION OF PROPERTY BEARING NEW MPL. NO.16, OLD PLOT NO.24/1, MEASURING AREA 40 SQ. YDS. COMPRISING IN KHASRA NO.10/24/1, SITUATED IN THE REVENUE ESTATE OF VILLAGE KHUREJI KHAS, IN THE ABADI OF CHAWLA PARK CHANDER NAGAR, ILLAQA SHAHDARA, DELHI-110051, WITH THE RIGHTS OF CONSTRUCTION UPTO SKY HIGH, Falling Under the Registration of Sub-Registrar VIII, Delhi.

(HARISH SHARMA)

AUTHORISED OFFICER

Bounded as under:-

EAST : Gali. WEST: Remaining Part of above said property.

NORTH: Property No.17.

SOUTH: Property No.15.

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. HEAD OFFICE AT, C-29, COMMUNITY CENTRE PANKHA ROAD, JANAKPURI, NEW DELHI-58. DATED: 15.12.2021



THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058

Phone: 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044 E-mail: leagal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com Website: www.kangrabank.com

APPENDIX IV [See rule 8(1)]

POSSESSION NOTICE

(For immovable property)

The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd." Head office at, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058. having its registered office at 1916, Chuna Mandi, Pahar Gani, New Delhi-110055, under The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule [3] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Bank had issued a demand notice on dated : 29-12-2014, calling upon the borrower Sh. Gulshan Kapoor, S/o. Sh. Yogender Kapoor, R/O. 45, Radhey Shyam Park, Parwana Road, Delhi-110051 and Sh.Gulshan Kapoor, S/o, Yoginder Kapoor C/o. Kapoor & Sons, H-18, Old Govind Pura Extn. Gali No.8, Delhi-110051 and also calling upon the Mortgagor & Surety Smt. Rita Rani W/o Gulshan Kapoor, R/o. 45, Radhey Shyam Park, Parwana Road, Delhi-110051, to repay the amount mentioned in the notice being ₹6,96,114/- (Rupees Six Lakhs Ninety Six Thousand One Hundred Fourteen Only), together with further interest, penal interest, and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of the notice till the date of payment, with in 60 days from the date of receipt of the notice.

The above mentioned borrower, mortgagor & surety having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, mortgagor, Surety and the public in general that the Bank has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred under sub-section (4) of section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with rule [8] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on this 15" day of December 2021. The borrower, mortgagor & surety in particular and the public in general is hereby

cautioned not to deal with the mortgaged property and any dealings with the property will be subject to the charge of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", for an amount of ₹6,96,114/- together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of notice till the date of realization together with all the costs incurred by the Bank in realizing the said amount. The borrower, mortgagor & surety attention is also been invited towards provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of time available, to redeem the below mentioned mortgaged property/Secured Asset.

# DESCRIPTION OF THE PROPERTY

The property under All the part and parcel of the BUILTUP FIRST FLOOR consideration is a PORTION with roof/ terrace rights with construction right built up First Floor upto last storey, bearing part of property no.45, area 45 sq. with Roof Rightsarea Yds., Out of khasra no. 28/20 Situated at abadi of measuring 45 Sq. Yds. RADHEY SHYAM PARK in the area of Village Khureji Khas Delhi-110051. Falling under the Registration of Sub-Registrar-VIII, New Delhi.

BOUNDED AS UNDER:-East : Part of Property.

West Property No.44. Gali 10 ft. North Part of Property. South

DELHI.

DATED: 15.12.2021

(MEENAKSHI VATS) AUTHORISED OFFICER THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. HEAD OFFICE AT, C-29, COMMUNITY CENTRE, PANKHA ROAD, JANAKPURI, NEW DELHI-58. Phone No.9013568418, 9013568419

INTEC CAPITAL LIMITED

Publication Demand Notice NOTICE UNDER SEC. 13 (2) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSESTS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 Demand Notice dated 24.11.2021 Sent on 25.11.2021 by Speed Post:-

WWW.FINANCIALEXPRESS.COM

(1) SURYA ENGINEERING PRODUCTS (Borrower) HROUGH ITS PROPRIETOR, MR. SURYA PARKASH, MANDIR WALI GALI, NEAR TO RELIANCE TOWER, HISSAR ROAD ROHTAK, HARYANA-124001

(2) MRS. DARSHANA DEVI (Co-Borrower)

106/14, KIRPAL NAGAR, ROHTAK, HARYANA - 124001 (3) MR. SURYA PARKASH (Co-Borrower)

106/14, KIRPAL NAGAR, ROHTAK, HARYANA-124001 (4) MR. SHAKATI PARKASH (Co-Borrower)

Date : 17.12.2021

2HOENIX/RESI\_177/2/2021-2022

R/O W. NO.-2, MEHAM, ROHTAK, HARYANA-124001 SUBJECT: Loan Agreement No. LNROH04215 - 160005784 dated 30.06.2015. You, committed default in repayment of loans and as such your Loan Account maintained with Intec

Capital Limited was declared Non-Performing Asset (NPA) on 31.12.2020 and for the sumof Rs.14,81,701/- (Rupees Fourteen Lakh Eighty One Thousand and SevenHundred One Only) in Agreement No. LNROH04215-160005784 dated 30.06.2015 is outstanding as on 31.10.2021. The Intec Capital Limited issued notice under the Act dated 24.11.2021 sent on 25.11.2021

calling upon you to repay the outstanding amount of Rs.14,81,701/- (Rupees Fourteen Lakh Eighty One Thousand and Seven Hundred One Only) is outstanding as on 31.10.2021. The said notice was returned back unserved with the remark "INSUFFICIENT ADDRESS". Hence the said notice is being published. LIST OF HYPOTHECATED ASSETS

S.No. **DETAILS OF MACHINERY** QUANTITY ACE - SLANT BED CNC LATHE MACHINE MODEL JOBBER JUNIOR

Installed at: - MANDIR WALI GALI, NEAR TO RELIANCE TOWER, HISSAR ROAD ROHTAK HARYANA-124001

**Authorized Officer** 

INTEC CAPITAL LTD Place : Delhi

PHOENIX ARC PRIVATE LIMITED CIN: U67190MH2007PTC168303 Regd. Office: 5th Floor, Dani Corporate Park, 158, CST Road, Kalina,

Santacruz (E), Mumbai 400098, Tel: 022-68492450, Fax: 022-6741231 Email: info@phoenixarc.co.in Website: www.phoenixarc.co.in

1. Saraswati Shiksha Samiti, Represented By its Authorised Signatory:- No.16, Raj Nagar, Kahrai Road, Shamshabad Road, Karondhana, Deori Road, Agra, Uttar Pradesh-282009 2. Mahendra Singh, S/o Than Singh, Village and Post Therai, Shamshabad Agra-283125 3. Pramodh Kumar Singh, S/o Than Singh, Village and Post Therai, Shamshabad Agra-283125 Kaila Devi Institute:- No.16, Raj Nagar, Kahrai Road, Shamshabad Road, Karondhan Deori Road, Agra, Uttar Pradesh-282009

Subject: Notice Under Section 13(2) Of The Securitisation And Reconstruction Of Financial Assets And Enforcement Of Security Interest Act, 2002 (SARFAESI ACT) Ref: Your Loan A/c. No. AGR07973S Dear Sir/Madam

1. Phoenix ARC Private Limited, a company incorporated under the Companies Act, 1956 and registered as a Securitization and Asset Reconstruction Company pursuant to section 3 of the SARFAESI Act, 2002 acting in its capacity as Trustee of Phoenix Trust-FY21-3 having its registered office at Dani Corporate Park, 5th Floor, 158, C.S.T. Road Kalina, Santa Cruz (East), Mumbai- 400 098 (hereinafter referred to as, "Phoenix") do hereby serve upon you the abovenamed addressees (hereinafter referred to as Borrowers) this notice under Section 13(2) of the SARFAESI Act, 2002 to repay the entire outstanding

2.As you are aware, that you the abovenamed addressees were in need of funds and for that purpose individually and collectively approached Varthana Finance Private Limited (hereinafter referred to as "Assignor") Agra Branch, for the purpose of granting Credit 3. Considering your request the Assignor's Agra branch sanctioned the financia assistance, the details are mentioned hereinbelow.

Loan Account Number: AGR07973S, Sanctioned Amount :- Rs.32,00,000/-Principal Outstanding Amount (a) Rs.25,04,217/-, Interest Receivable Due Amount (b)Rs.9,32,793/-, Additional Interest Charges on Delayed Payment(c) Rs.5,87,243/-Bounce Charges (d) Rs. 11,000/-, Total Outstanding Amount in Rupees as on 31.10.2021:-Rs.40,35,253/-

The above-mentioned facility was repayable as per the repayment schedule agreed upon by you the abovenamed addressees. 4. For securing the above-mentioned credit facility you the abovenamed Addressees acting as Borrower/ Co-Borrower/Mortgagor have executed various financial and security documents and also created security interest in favour of the Assignor

immoveable property as described in Schedule. After availing the Credit facility, you the Addressees have jointly and severally failed to honour the terms of the repayment. Inspite of repeated follow ups by the officials/ authorized officers of the Assignor so as to ensure that the loan account in respect of the credit facility of the above named Addressees does not become a Non-performing Asset (NPA), you the abovementioned addressees wilfully and unjustifiably failed to pay and not heeded to the innumerable requests made to you from time to time and as a result, the credit facility has since been classified as Non-Performing Asset on 31-08-2019 in its books by the Assignor. 6. Subsequently, the Assignor Company assigned the entire debt arising out of the said Credit Facility to Phoenix, together with the underlying securities/security interest vide the Assignment Agreement dated 31.12.2020, thereby assigning all its rights, title, interest and benefit in the said debts in favour of Phoenix Trust FY 21-3 ("Phoenix") along with the security interest therein. In view of the aforesaid assignment, Phoenix has stepped into the shoes of Assignor Company as the secured creditor and is solely and legally entitled to initiate / adopt / appropriate legal action and / or continue to pursue any existing legal action in its own name against you the abovenamed addressee for recovery.

7. Pursuant to the said assignment, Phoenix started following up with you the abovenamed addresses, for repayment of the dues. However, we regret to note that, despite several follow ups for repayment of the dues, for which each of you, are jointly and severally liable, the loan account(s) remain in arrears till date.

8. The security mentioned in Schedule referred to herein is a "Secured Asset" within the meaning of Section 2 (zc) of the SARFAESI Act, 2002. 9. As you the Addressees have jointly and/or severally failed and neglected to make the payments of the amount due and payable to Phoenix, Phoenix hereby calls upon you, the above named Addressee and demands from you the Addressees jointly and/or severally to pay to Phoenix, joint and/or severally, within a period of 60 (Sixty) days from the date of receipt of this notice, a sum of Rs.40,35,253/-.(Rupees Forty Lakhs Thirty Five Thousand Two Hundred Fifty Three Only) as on 31.10.2021 with future interest, cost, charges and

other expenses from 01.11.2021 till payment and/or realization. 10. Please treat this notice as issued under the provisions of Section 13(2) of the SARFAESI Act. 2002. Kindly note that upon the above named Addressees failure to comply with this notice within the aforesaid statutory period of 60 (Sixty) days, Phoenix shall be entitled to take such steps as it may deem fit for the purpose of enforcement of security interests including but not limited to taking the actual possession of the Secured Asset as described in Schedule hereto in accordance with the provisions of Section 13(4) of the SARFAES Act. 2002 and sell the Secured Asset to realize the total outstanding dues, entirely at the Borrower's risk as to the cost and the consequences.

off or to create any third party right in respect of the Secured Asset as described in Schedule properties, without prior written consent / approval of Phoenix. You are also put on notice that any contract in contravention of this statutory injunction / restraint, as provided under the said Act is an offence 12. As per the provisions of the aforesaid Act, all of you are also informed that in case if the proceeds from the liquidation of the Secured Asset are not adequate/sufficient to cover the

dues of Phoenix, Phoenix reserves its right to proceed against all of you jointly and/or severally for

11. Please note that you are also restrained and injuncted under the provisions of Section

13(13) of the SARFAESI Act to transfer by way of lease or sell and / or alienate or dispose

recovery of balance dues by initiating appropriate legal action as may be advised. For Phoenix ARC Private Limited Trustee of Phoenix Trust-FY 21-3

Schedule:-All that piece and parcel of property bearing Khasra No.91, Measuring area 3.2380 Ha share 1/6 Area 0.5396 ha (5396 Sq. mtr.) total area 0.5396 ha (5396 sq. mtr.) Situated at Mauja Karodhana, Fatehabad Tehsil, Agra Dist. and Property bounded as: **East By**: Chak Road, **West By**: Khet Vijay Raj, **North By**: Khet Digar, **South By**: Khet Chet Ram



THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD.

C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone: 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044 E-mail: leagat@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com Website : www.kangrabank.com

APPENDIX IV

[See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE

(For immovable property)

The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd." Head office at, C-29.Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058. having its registered office at 1916, Chuna Mandi, Pahar Ganj, New Delhi-110055, under The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule [3] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Bank had ssued a demand notice on dated 13-08-2021, calling upon the borrower Sh. Avtar Singh S/o.Sh.Daya Singh R/o. H.No. 43-B, Gali No.2, Gharwalli Mohalla, Laxmi Nagar, New Delhi-110092 also at Sh. Avtar Singh S/o.Sh. Dava Singh C/o. M/s. L.D. Tourist Taxi Service, Opp. P.V. Hostel Lodhi Road, New Delhi-110003 and calling upon mortgagor and Surety Smt. Jasvir Kaur W/o. Sh. Avtar Singh R/o. H.No. 43-B, Gali No. 2, Gharwalli Mohalla, Laxmi Nagar, New Delhi-110092, to repay the amount mentioned in the notice being ₹19,34,258/- (Rupees Nineteen Lakhs Thirty Four

the date of the notice till the date of payment, with in 60 days from the date of receipt of The above mentioned borrower, mortgagor & surety having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower, mortgagor, surety and the public in general that the Bank has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred under sub-section (4) of section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with rule [8] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on this 15" day of December 2021. The borrower, mortgagor & surety in particular and the public in general is hereby

Thousand Two Hundred and Fifty Eight Only), together with further interest, penal

interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from

₹19,34,258/- together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of notice till the date of realization together with all the costs incurred by the Bank in realizing the said amount. The borrower, mortgagor& surety attention is also been invited towards provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of time available, to

cautioned not to deal with the mortgaged property and any dealings with the property will

be subject to the charge of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", for an amount of

DESCRIPTION OF THE PROPERTY The property under All the part and parcel of the BUILT UP SECOND FLOOR. consideration is the UPTO CEILING LEVEL, WITHOUT ROOF RIGHTS & BUILT

redeem the below mentioned mortgaged property/Secured Asset.

Built up Entire Second UP THIRD FLOOR, WITH ROOF RIGHTS, LAND AREA Floor up to ceiling MEASURING 55 SQ. YDS. i.e. 45.98 SQ. MTRS. (EACH level and built up third FLOOR). WITH COMMON ENTRANCE, PASSAGE & floor with Roof rights, STAIRCASE, PART OF PROPERTY BEARING NO. H-43-B, area Measuring 55 Sq. OUT OF KHASRA NO.63/8, SITUATED IN THE ABADI OF Yds. (each floor) GARHWALI MOHALLA, LAXMI NAGAR, IN THE AREA OF VILLAGE KHUREJI KHAS, ILLAQA SHAHDARA, DELHI-110092. Falling Under the Registration of Sub-Registrar

(HARISH SHARMA)

AUTHORISED OFFICER

Bounded as under:-EAST : Property of Others. WEST : Road 20 ft. Wide.

NORTH: Property of Others. SOUTH : Property Of Others.

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. DELHI. HEAD OFFICE AT, C-29, COMMUNITY CENTRE, PANKHA ROAD, JANAKPURI, NEW DELHI-58. DATED: 15.12.2021

VIIIA, Preet Vihar, Delhi.

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058 Phone: 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044 E-mail: leagal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com Website: www.kangrabank.com

> APPENDIX IV [See rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For immovable property)

having its registered office at 1916, Chuna Mandi, Pahar Ganj, New Delhi-110055, under The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, (54 of 2002) and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with rule [3] of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, the Bank had issued a demand notice on dated09-12-2019, calling upon the Borrower& Mortgagor Sh. Kuldeep Singh S/o. Sh. Waryam Singh R/o. B-102, Gali No.12, Indira Marg Mandawali Fazalpur, Delhi-110092, also at Sh. Kuldeep Singh S/o. Sh. Waryam Singh C/o. Imperial Hotel Taxi Stand, Janpath Road, Delhi-110001, to repay the amount mentioned in the notice being ₹6,57,761/- (Rupees Six Lakhs Fifty Seven Thousand Seven Hundred and Sixty One Only), together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of the notice till the date of payment, with in 60 days from the date of receipt of the notice.

hereby given to the borrower, mortgagor and the public in general that the Bank has taken possession of the property described here in below in exercise of powers conferred under sub-section (4) of section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, read with rule [8] of The borrower & mortgagorin particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the mortgaged property and any dealings with the property will be subject to the charge of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", for an amount of ₹6,57,761/-

with all the costs incurred by the Bank in realizing the said amount. The borrower & mortgagorattention is also been invited towards provisions of Sub-Section (8) of Section 13 of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of time available, to

**DESCRIPTION OF THE PROPERTY** 

Built up flat on Second Floor portion without roof rights, area

WITHOUT ROOF RIGHTS ALONGWITH ITS WHOLE OF THE STRUCTURE, WITH COMMON PASSAGE, ENTRANCE, STAIRCASE AND ROOF OF THE TOP FLOOR IS COMMONLY WITH OTHER PORTION WONERS, A part of Builtup Property Bearing Property No. "102. Old No. B-227", OUT OF KHASRA NO. 848, Situated at Abadi of "Gali No.12, Indira Marg Mandawali," in the area of Village Mandawali Fazalpur, Illaga Shahdara, Delhi-110092. Falling Under the Registration of Sub-Registrar VIII, Delhi.

NORTH: Property of others. SOUTH: Property of others.

DELHI. DATED: 15.12.2021

THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. C-29, Community Centre, Pankha Road, Janakpuri, New Delhi-110058

Sh. Satyajit Mohanty, S/o. Sh.Bijay Kumar Mohanty,

R/o.F-54/12, Janta Garden, Gali No.4, Pandav Nagar Delhi-110092. Sh. Satvajit Mohanty, S/o. Sh. Bijay Kumar Mohanty,

Sh. Satyajit Mohanty, S/o. Sh. Bijay Kumar Mohanty,

C/o. M/s. CFM Foods LLP., Shop No.1, LSC, DDA Market, V4, Mayur Plaza, Mayur Vihar Ph-I,

(Borrower & Mortgagor) SUB: DEMAND NOTICE UNDER SECTION 13(2) READ WITH RULE 3 (1) OF THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND

office at C-29 Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi- 110058, having its registered office at 1916, Chuna Mandi, Pahar Ganj, New Delhi-110055, and also

Harish Sharma, Authorised Officer, of "The Kangra Co- Operative Bank Ltd.", Head

That you are a member of "The Kangra Co-operative Bank Ltd." having

Membership No. 54177 and Membership Account No. MV/2/887. 2. That on your request, a Secured Loan (Against Property) amounting to

That, in compliance of the terms of granting the above mentioned Secured Loan facilities to you, and you had alsomortgaged your property namely: BUILT-UP THIRD FLOOR, UP TO CEILING LEVEL, WITHOUT ROOF RIGHTS, LAND AREA MEASURING 50 SQ. YDS. (APPROX.), i.e. 41.805 sq. Mtrs., HAVING ITS PLINTH/COVERED AREA MEASURING 41.805 SQ. MTRS., ALONGWITH ITS WHOLE OF STRUCTURE ACCOURDING TO THE SITE THEREIN, CONSISTING OF TWO PLUS ONE ROOM SET AT BACK SIDE, FITTED WITH ELECT, AND WATER TAP CONNECTIONS WITH SEPERATE METERS, COMMON ENTRANCE. PASSAGE, STAIRCASE AND ONE SCOOTER/BIKE PARKING SPACE AT GROUND FLOOR, WITH THE RIGHTS TO INSTALL/MAINTAIN THE WATER TANK AND T.V. ANTENNA ON THE ROOF OF TOP FLOOR, A PART OF PROPERTY BEARING NO. F-54/12, OUT OF KHASRA NO.54, SITUATED IN THE ABADI OF

security in the above mentioned Secured Loan facilities being sanctioned to you. . That due to the failure on your part in properly operating the above mentioned accounts, they became overdrawn accounts and continued to remain overdrawn due to which the same were declared a Non Performing Assetson dated 15-01-2021 for an amount of ₹15,86,595/- as per our Bank's record and is still continuing to remain

NEEM KA BANGER alias PATPARGANJ, ILLAQA SHAHDARA, DELHI-110091, As

had alsointimated/informed you about the deteriorating condition in the above mentioned accounts, due to which further proceedings that could be initiated shortly against you under various provisions of the Law, and the consequences that you could face later on under such Legal Proceedings.

towards the above mentioned accounts, as a result of which the following amount including interest is due from you as on 30-09-2021:-

Secured Loan Business a/c.: ₹14,33,951.00

Secured Loan Transport a/c.: ₹2,88,599.00 (Including Intt.)

That since you have failed to make satisfactory payments towards your above mentioned accounts, as mentioned here in above despite all our efforts and in view of the facts that your Loan accounts have already been declared a Non Performing Asset, it has been decided to invoke the provisions of the Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act & Rules, 2002, for recovery of the above mentioned amount by disposing off the property

That you are therefore called upon to make the full payment towards discharge of the liability of ₹17,22,550/- as mentioned above together with further interest, Penal interest and other charges as are applicable in your above mentioned loan account from time to time from 31-07-2021 till the date of payment, with in the mandatory period of 60 days, from the date of receipt of this notice failing which the bank would have no other option but to proceed further under the provisionsof Section 13(4) and Section 14 of the Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcementof Security Interest Act, 2002, alongwith Rules 8 & 9 of The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, for taking possession and disposal (selling of) your

sub-section (10) read with rule 11 of the aforesaid Act, for the purposes of recovery of shortfall of secured debt.

13 read with rule 3 (5) of The Securitisation and Reconstruction of the Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002, in respect of time available, to

Thanking You.

HARISH SHARMA AUTHORISED OFFICER

Yours faithfully

financialem.epap

The undersigned being the Authorised officer of "The Kangra Co-operative Bank Ltd.", Head office at, C-29, Community Centre, Pankha Road, Janak Puri, New Delhi - 110058, The above mentioned borrower & mortgagorhaving failed to repay the amount, notice is

The Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, on this 15"day of December 2021. together with further interest, penal interest and other charges as are applicable to this Loan account from time to time, from the date of notice till the date of realization together

redeem the below mentioned mortgaged property/Secured Asset.

The property under All the part and parcel of the BUILT UP FLAT ON SECOND consideration is a FLOOR PORTION, AREA MEASURING 45 SQ. YDS. Measuring 45 Sq.

Bounded as under:-EAST: Property of Others. WEST: Road 15ft, wide.

> AUTHORISED OFFICER THE KANGRA CO-OPERATIVE BANK LTD. HEAD OFFICE AT, C-29, COMMUNITY CENTRE PANKHA ROAD, JANAKPURI, NEW DELHI-58. Phone No. 9013568418, 9013568419.

(HARISH SHARMA)

Phone: 011-25611041, 25611042, 25611043, 25611044 E-mail: leagal@kangrabank.com, legal1@kangrabank.com Website : www.kangrabank.com Ref. No. KCB/HO/ Dated: 25-10-2021

AT/PO Barkul, Distt. Khurdha, Orissa Pin Code 201301.

C/o. M/s. CD Life Style Pvt. Ltd. A-30, Sector - 65, Noida, (U.P.). Sh. Satyajit Mohanty, S/o. Sh. Bijay Kumar Mohanty,

ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT AND RULES, 2002.

having one of it's branch office at C-4/17, 1st Floor, Acharya Niketan, Mayur Vihar, Phase-I, Delhi-110091, do hereby serveupon you the Noticees with the following notice under the provisions of Section 13(2) read with Rule 3 (1) of the above mentioned Act &

₹14,00,000/- (Rupees Fourteen Lakhs Only), and a Secured Loan (Transport) amounting to ₹4,00,000/- (Rupees Four Lakhs Only) were sanctioned to you in your Membership Account No. MV/2/887, being maintained at our Mayur Vihar Branch.

JANTA GARDEN, PANDAV NAGAR, IN THE AREA OF VILLAGE GHARONDA

N.P.A. accounts till the date of this Demand Notice. That on several occasions our Bankofficialshave contacted youall the noticees, and

. That despite of having knowledge about the deteriorating condition in the above mentioned accounts subsequent to which further Legal proceedings that could be initiated shortly against you, you have failed to makesatisfactory/sufficient payments

→ Debit balance in your,

mortgaged by the noticee no. 2, as mentioned in Para 3 above which is lying mortgaged with us.

above mentioned mortgaged property for recovery of the above mentioned amount. That you are also intimated/informed about invoking the provisions of section 13

0. Please take note that as per section 13 (13) of the aforesaid Act, after receipt of this Notice, you the Noticees are restrained from transferring by way of sale, lease or otherwise any of the Secured Assets referred to in this Notice, without prior written

redeem the above mentioned mortgaged property. 12. Needless to mention that this Notice is addressed to you the Noticees without

New Delhi

consent of the Bank. 11. The Noticee attention is also been invited to provisions of Sub-Section (8) of Section

prejudice to any other remedy available to the Bank. Please note that a copy of this notice is retained in the Bank for reference and further

→ Debit balance in your, ₹17,22,550.00

# रादुविवि में दसवें नि:शुल्क रोजगार मेले का उद्घाटन समारोह

# असफलता की चुनौती को स्वीकार करने का कौशल ही सफलता का मूल मंत्र : एसपी

जबलपुर 🔳 राज न्यूज नेटवर्क

रानी दुर्गावती वि.वि. के कौशल विकास विभाग विज्ञान भवन में आयोजित 10वें रोजगार मेला के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक जबलपुर सिद्धार्थ बहुगुणा ने कहा कि असफलता ही सफलता के मार्ग को प्रशस्त करती है, इससे सीख कर ही प्रत्येक प्रतिभागी अपनी सफ लता के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। आत्मविश्वास एवं सकारात्मकता की शक्ति से स्वयं को उर्जावान रखते हुए हमेशा आगे बढने का प्रयास करते रहें। उद्घाटन सत्र में छात्रों द्वारा जिज्ञासा के रूप में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से सवाल किए, जिसमें छात्रों ने पूछा कि, मोटिवेटेड रहने के लिए क्या किया जा सकता है-आप कार्यक्षेत्र में आने वाले तनावों को कैसे मैनेज करते है-मनोवैज्ञानिक रुप से कैसे सक्षम बना जाए एवं प्रशासन द्वारा कैसे मदद मिलेगी। हर जगह अनुभव को ही वरीयता क्यों प्रदान किया जाता है।

# शुभकामनाए प्रदान की

रोजगार मेला के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता करते हुए कुलपति प्रो. कपिल देव मिश्र ने कहा कि तकनीकी कौशल के साथ आज आत्मविश्वास एवं प्रस्तुतीकरण



कौशल आवश्यक है रोजगार मेला में छात्र-छात्राएं आत्मविश्वास के साथ कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल से स्वयं को प्रस्तुत करें और सफ्लता-असफ्लता दोनों परिस्थिति को स्वीकार कर कार्य भावना के साथ आगे बढ़ें। विशिष्ट अतिथि रोहित सिंह कौशल, वित्त नियंत्रक, रा.दु.वि.वि. ने 10वां वृहद रोजगार मेला का आयोजन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना बहुत ही अहम् एवं महत्त्वपूर्ण है, जिस हेत् साक्षात्कार कौशल के महत्व को बताया एवं सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं प्रदान की।

#### 30 से अधिक कंपनियो ने भागीदारी की

कैरियर गाइडेंस, काउंसलिंग, ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ संयोजक प्रो. सुरेंद्र सिंह ने कार्यक्रम की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए कहा कि 10 वां निःशुल्क वृहद रोजगार मेला कैरियर गाइडेंस, काउंसलिंग, ट्रेनिंग एवं प्लेसमेंट प्रकोष्ठ, रादुविवि द्वारा शिक्षण विभागों एवं विश्वविद्यालय से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों के छात्र-छात्राओं हेतु तीन दिवसीय ''10वां निःशुल्क वृहद् रोजगार मेले'' का आयोजन किया जा रहा है, इसमें लगभग 30 से अधिक कंपनियो ने भागीदारी की। इस दौरान १८०० रजिस्टर्ड प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान म.प्र. राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ब्लाक पनागर के सहायक व्लॉक प्रबंधक रिषा पाण्डेय, हितकारिणी महिला महाविद्यालय सहित कई महाविद्यालयों के छात्र रोजगार मेले में शामिल हुए।

#### कार्यक्रम में यह रहे प्रमुख रूप से मौजूद

कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि सुश्री सीमा पटैल, कार्यपरिषद सदस्य, एवं एस.एल.कोरी, क्षेत्रीय प्रबंधक, सैडमैप जबलपुर, प्रो सुनीता शर्मा, डॉ निपुन सिलावट, विवेक राजपूत, प्रो. अशोक दास गुप्ता, डॉ विकास सिंह, रीतेश चौरसिया, महावीर त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। कार्यकम का संचालन डॉ मीनल दुबे एवं धन्यवाद ज्ञापन डॉ अजय मिश्रा ने किया। आज 17 दिसंबर २०२१ को समापन अपरान्ह ३.०० बजे से किया जाएगा।

# कलेक्टर ने अभियान चलाकर लाभ दिलाने के लिये निर्देश

# गरीब, बेसहारा और दिव्यांगों को लाभ दिलाने समय-सीमा तय

जबलपुर 🔳 राज न्युज नेटवर्क

कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत गरीबए बेसहारा एवं दिव्यांग व्यक्तियों को लाभ पहंचाने के उद्देश्य से बस्तियों एवं स्थानों के चिन्हींकरण और पात्रता पर्ची बनाने के लिये तिथिवार समय सीमा निर्धारित किया है। कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने गुरूवार को जिले के सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों और मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र लिखकर तय समय सीमा के अनरूप अभियान चलाकर कार्य संपादन का निर्देश दिया है।

झुग्गी, झोपड़ी, बस्तियों में, विभिन्न धार्मिक स्थलों के पास में धर्मशालाओं आदि के आस.पास मांग कर जीवन यापन

करने वाले गरीब लोगों की पहचान के लिये 24 दिसम्बर तक दलों का गठन कर उनका प्रशिक्षण कराने के निर्देश दिये गये हैं। इसके बाद 7 जनवरी 2022 तक दलों द्वारा सर्वे कार्य करने और 14 जनवरी 2022 तक सर्वे रिपोर्ट प्रस्तृत करने और 28 जनवरी 2022 तक चिन्हांकित हितग्राहियों को पात्रता पर्ची जारी करने की समय.सीमा तय की गई है। जबिक 31 जनवरी 2022 तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तृत करने के निर्देश दिये गये है। कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सर्वे के दौरान ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं हो, उनका प्रमाणीकरण एसडीओ राजस्व से कराया जाय। ऐसे व्यक्तियों को अन्य वंचित श्रेणी मे सत्यापित किया जाकर पात्रता पर्ची बनाई जाय।

### 23 प्रतिशत डीए देने की मांग को लेकर पेंशनर्स एसोसिएशन ने सीएम के नाम भेजा पत्र

जबलपुर(आरएनएन)। पेंशनर्स एसोसियेशन द्वारा पूरे मध्य प्रदेश में ब्लॉक, तहसील, जिला स्तर पर प्रधानमंत्री को 50 हजार से अधिक पोस्ट कार्ड माह नवंबर 2021 से भेजे तथा पूर्व में पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर समस्त तहसील के तहसीलदार, एसडी एम के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे। जिसके फलस्वरूप पेंशनर्स को मप्र सरकार द्वारा 5 प्रतिशत डीए के आदेश जारी किये गये हैं। इस डीए से प्रदेश का पेंशनर्स दुखी है, क्योंकि मंहगाई तो सुरसा की भांति मुंह पसार रही है, जो ऊँट के मुँह में जीरा के बराबर है। पेंशनर्स एसोसिएशन के जिला शाखा अध्यक्ष पं नरेश उपाध्याय, संभागीय अध्यक्ष व्ही पी शुक्ला, आर के प्यासी, डी एस गुप्ता, प्रेमवल्लभ शर्मा, के के शुक्ला, हीरालाल साहू, अशोक दुबे, एनपी निगम, ओमशंकर शुक्ला, दामोंदर प्रसाद शुक्ला, जी पी कोरी, आर एल पाण्डे, डी डी शर्मा आदि ने मुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री से मांग की है कि केन्द्र के समान 23 प्रतिशत पेंशनर्स को दिया जाये।

#### आरओ को ईवीएम ट्रंक का वितरण 23 को

जबलपुर(आरएनएन)। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कर्मवीर शर्मा ने पनागर, कुंडम, सिहोरा और जबलपुर बरगी के रिटर्निंग ऑफीसर व सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को निर्देशित किया है कि वे गुरुवार 23 दिसंबर को रांझी स्थित शासकीय जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के ईव्हीएम वेयरहाउस से ईवीएम ट्रंक प्राप्त करना सुनिश्चित करें। साथ ही कर्मवीर शर्मा ने निर्देशित किया है कि ईव्हीएम ट्रंक परिवहन कर विकासखंड में स्थित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखने की व्यवस्था भी

#### वैक्सीनेशन में गति लाने एसडीएम ने दल के साथ किया घर-घर सर्वे कार्य



**पवई (आरएनएन)।** शासन द्वारा कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लगातार वैक्सीनेशन कार्य किया जा रहा है और लोगों को वैक्सीनेशन के दोनों दोज अति आवश्यक किया गया है। इसी कडी में नगर के वार्ड नंबर 8 बस स्टैंड में संचालित वैक्सीनेशन केंद्र मे एसडीएम के एस गौतम द्वारा पहुंचकर व्यवस्थाएं देखी, साथ ही वार्ड नंबर 10 मस्जिद के पास मोहले में दल के साथ मिलकर घर–घर सर्वे कार्य किया गया और लोगों को वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगवाने आग्रह किया गया। इस अवसर पर डॉ एम एल चौधरी बीएमओ, अंजू त्रिपाठी सुपरवाइजर, बीपीएम राम शरण

तिवारी, सदर पटवारी अर्जुन सिंह, शिक्षक हरिशंकर प्रजापति, नगर परिषद टीम एवं आशा कार्यकर्ता मौजूद रहे।

### नाट्य कार्यशाला का हुआ आयोजन

जबलपुर। रंग कर्म मनुष्य की चेतना को जागृत कर एक बेहतर समाज के निर्माण में सहायक होता है । उक्त विचार विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित फिल्म वाकिंग विद द विंड तथा विडो औफ साईलेंस के निर्माता और निर्देशक प्रवीण मोर्छेले और वरिष्ठ रंगकर्मी ऐवं सिनेमेटोग्राफर अजय चौरे ने व्यक्त किए। आर्यावर्त सांस्कृतिक संस्थान द्वारा तिलक बाल मंदिर परिसर में आयोजित नाट्य रंग कार्यशाला का समापन हुआ। इस दौरान संस्था के अध्यक्ष आदेश सिंह, रजनीश यादव, अजय धाबर्डे, दीपक कुशवाहा, अमन कुशवाहा, काव्य कांत, अनन्या, आदिरा, अनुज यादव, वैरोनिका बेंजामिन, अभिषेक दांगी, अनिरुद्ध विश्वकर्मों, सार्थक यादव, सुलेखा हांडे आदि उपस्थिति थे।

# जबलपुरी मटर से बने व्यंजनों की जिला स्तरीय प्रतियोगिता 26 को



#### जबलपुर 🔳 राज न्यूज नेटवर्क

जबलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा 26 दिसम्बर को जिला स्तरीय मटर व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन होटल कल्चरी रेसीडेंसी में किया जायेगा। जबलपरी मटर की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के उद्देश्य से कलेक्टर एवं स्मार्ट सिटी के चेयरमेन कर्मवीर शर्मा के निर्देशानुसार इस प्रतियोगिता का आयोजन ईट स्मार्ट सिटी चैलेंज के अंतर्गत वोकल फॉर लोकन की थीम पर किया जायेगा। ज्ञात हो कि आत्म निर्भर मध्यप्रदेश की संकल्पना को पूरा करने एक जिला.एक उत्पाद योजना के तहत जबलपुर जिले में मटर की फ्सल का चयन किया गया है।

स्मार्ट सिटी की सीईओ निधि सिंह राजपुत ने बताया कि मटर व्यंजन प्रतियोगिता के माध्यम से जनसामान्य तक मटर के व्यंजनों की ऐसी कई रेसेपी सामने लाने का प्रयास किये जा रही है, जिसे सहजता से घर पर भी बनाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिला स्तरीय मटर व्यंजन प्रतियोगिता में भाग लेने के इच्छुक व्यक्ति प्रतियोगिता के गुगल फॉर्म को भरकर अपना स्थान सुनिश्चित कर सकते है, प्रतियोगिता का आयोजन 26 दिसम्बर को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक किया जायेगा एवं प्रतियोगिता का परिणाम घोषित किया

#### व्यंजन प्रतियोगिता की है तीन श्रेणी

सीईओ स्मार्ट सिटी के अनुसार मटर व्यंजन प्रतियोगिता तीन श्रेणी में होगी। इसमें मटर से बना नाश्ता, मीठा या नमकीन, मटर की सब्जी एवं मटर का अन्य कोई पकवान, चटनी, सूप आदि शामिल हैं। प्रतियोगिता भाग लेने के लिए प्रत्येक प्रतिभागी को

#### एक प्रतिभागी एक श्रेणी में ले सकता है भाग

श्रीमती राजपूत के अनुसार इस प्रतियोगिता में ऐसे महिला एवं परूष प्रतिभागी शामिल होंगे जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम ना हो। एक प्रतिभागी एक ही श्रेणी में भाग ले सकता है। जो व्यंजन आवेदन फॉर्म में बताये गए हें उसे तैयार करके 26 दिसम्बर को दोपहर 12 के पहले होटल कलचुरी रेजीडेंसी में उपस्थित होना होगा। प्रतियोगी का परिणाम ज्यूरी के द्वारा घोषित किया जायेगा। जबलपुर स्मार्ट सिटी के ईट राइट मैस्कॉट फि ट बड्डा के कॉमिंक वीडियोस के माध्यम से श्मटर उत्सव तथा मटर की उपयोगिता के विषय में जानकर दी जायगी। प्रतियोगिता के लिए गुगल फॉर्म की लिंक जबलपुर स्मार्ट सिटी की वेबसाइट तथा जबलपुर स्मार्ट सिटी फैसबुक, इंस्टाग्राम व टिवटर पेज से प्राप्त की जा सकती है। किसी तरह की तकनीकी सहायता के लिए मोबाइल नंबर 9993886171 पर सुबह 10:30 से 6:30 के बीच संपर्क किया जा सकता है।

पहले गुगल फॉर्म के माध्यम से आवेदन करना होगा। गगल फॉर्म में प्रत्येक प्रतिभागी को मटर व्यंजन बनाने की विधि, सामग्री एवं मात्रा आदि उल्लेख स्पष्ट रूप से करना होगा। जो भी व्यंजन तैयार किये जायेंगे उसकी मात्रा 5 व्यक्ति के आधार पर की जाएगी, उसकी सामग्री में मटर का हिस्सा 75 प्रतिशत होगा। व्यंजन में केवल ताजे मटर का उपयोग किया जायेगा, जिस व्यंजन का उल्लेख आवेदन में दर्शाया गया हैं, वही व्यंजन प्रतियोगिता में शामिल होगा। संस्था का निर्णय अंतिम होगा।

#### पश्चिम मध्य रेल

पत्र क्र. एमडी/सीएच/पमरे/जबज/हाउस सर्जन, दिनांक 14.12.2021

केन्द्रीय चिकित्सालय, पश्चिम मध्य रेल, जबलपुर में जूनियर रेसीडेंट (हाऊर ऑफिसर्स) के तीन पदों हेतु (प्रसूति व स्त्री रोग – 1 पद, मेडिसन – 1 पद एवं सर्जरी – 1 पद) चिकित्सक की आवश्यकता है।

**वयन तिथिः** दिनांक 05.01.2022 **दिनः** बुधवार **समयः** 11.00 बजे अवधिः छह माह (एक सत्र), अधिकतम अवधि २ वर्ष तक ।

वेतनमानः मध्यप्रदेश सरकार द्वारा मान्य दरें (लगभग ₹ 53,000/- प्रतिमाह)। (इन्टर्नशिप करने के बाद)। राज्य मेडिकल काऊंसिल में पंजीयन। 2. जिस चिकित्सक का नियमानसार बॉन्ड समाप्त हो गया हो. वे आवेदन कर सकते है। 3. जो चिकित्सक किसी सरकारी नौकरी में कार्य कर रहें है, वे आवेदन के पात्र नहीं है।

अन्य सुविधाएँ: 1. सर्व सुविधायुक्त चिकित्सालय में कार्य करने का अनुभव। 2. रेलवे चिकित्सालय में स्वयं के ईलाज की मुफ्त व्यवस्था। 3. एक वर्ष सफलतापूर्वक पुरा करने पर एक सेट मुफ्त प्रथम श्रेणी पास कार्य स्थल से घर आने जाने हेतु। नोटः साक्षात्कार हेतु योग्य चिकित्सक सभी मूल प्रमाण पत्र एवं स्वं प्रमाणित छाय प्रति तथा दो फोटोग्राफ के साथ चिकित्सा निर्देशक कार्यालय में निर्धारित तिथि को समय प्रातः 11.00 बजे स्वयं उपस्थित हों।

चिकित्सा निदेशक, केन्द्रीय चिकित्सालय, जबलपुर कोरोना से बनाना है दूरी तो वेक्सीन लगवाना है जरुरी।



दिनांक - 17.12.2021

कामशियल इंजीनियसे एंड बॉडी बिल्डर्स कं. लिमिटेड ्सीआईएन : L28100MP1979PLC049375 रजि.ऑफिसः ४८, वंदना विहार, नर्मदा रोड, गोरखपुर जबलपुर (म.प्र.) इंडिया-४८२००१

फॉर्म नं. एन.सी.एल.टी. ३ए विज्ञापन विवरण याचिका [नियम ३५ देखें] नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, इंदौर बेंच के समक्ष C.P. (CAA)/8(MP)2021 के साथ संबंधित C.A.(CAAA)/8(MP2021

उपरोक्त अधिनियम के कंपनीज एक्ट, 2013 – धारा 230 से 232 एवं इसके अंतर्गत निर्मित

<mark>हामर्शियल इंजीनियर्स एंड बॉडी बिल्डर्स कं. लिमिटेड,</mark> जिसका सीआईएन L28100MP1979PLC049375, कंपनीज एक्ट, 1956 के अंतर्गत स्थापित कंपनी एव जिसका पंजीकृत कार्यालय 48, वंदना विहार, नर्मदा रोड, गोरखपुर, जबलपुर–482001

ज्युपिटर वेगन्स लिमिटेड, जिसका सीआईएन— CINU35202WB2006PLC110822 कंपनीज एक्ट, 1956 के अंतर्गत स्थापित कंपनी एवं जिसका पंजीकृत कार्यालय 4/2 मिडलटन स्ट्रीट, कोलकाता–700071, पश्चिम बंगाल में है।

#### रथानांतरणकर्ता/समामेली कंपर्न याचिका की सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के तहत समामेलन की योजना की मंजूरी के लिए एक याचिका, जैसा कि कामर्शियल इंजीनियर्स एंड बॉडी बिल्डर्स कं. लिमिटेड आवेदक/स्थानांतरी/समामेलित कंपनी) ओर ज्यूपिटर वैगन्स लिमिटेड ''स्थानांतरणकर्ता/समामेली कंपनी'') के बीच विचार हेतु आवेदक कंपनी द्वार उपरोक्तानुसार 18 नवम्बर 2021 को प्रस्तुत किया गया था और उक्त याचिका 13 जनवरी 2022 को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की इंदौर बेंच के समक्ष सुनवाई के लिए तय की गई है। उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को याचिकाकर्ता व अधिकृत प्रतिनिधि के पास उसके मुद्दे की सूचना, उसके या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उसके नाम और पते के साथ हस्ताक्षरित सूचना, याचिकाकर्ता के अधिकृत प्रतिनिधियों तक याचिका सुनवाई के लिए तय की गई तारीख से दो दिन पूर्व से अधिक विलंब से नहीं, भेजन होगा। जहाँ वह याचिका का विरोध करना चाहता है, विरोध के आधार या उसके हलफनामे की एक प्रति ऐसे नोटिस के साथ प्रस्तुत करनी होगी। अधोहस्ताक्षरी द्वारा इसकी आवश्यकता वाले किसी भी व्यक्ति को उसके लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करने पर नोटिस की एक प्रति प्रस्तुत की जायेगी।

> सी एस चेतन पटेल उपरोक्त दर्शित आवेदक कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधि पताः ३०१, अक्षर स्टेडिया , सिम्फनी हाउस के सामने बी/एच आर्मिडा कॉस्मेटिक सेंटर , कार्यालय एस .जी हाईवे , बोदकदेव , अहमदाबाद-380059

म.प्र. भोज (मुक्त) विश्वविद्यालय

दूरस्थ शिक्षा का प्रदेश में एकमात्र शासकीय विश्वविद्यालय आज होंगे शिक्षित तो भविष्य होगा सुरक्षित 2021-22

प्रवेश प्रारंभ

रनातक, रनातकोत्तर, डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट रोजगारमुखी पाठ्यक्रम ү

बी.ए., बी.एस.सी. (जीव विज्ञान, गणित, आई.टी), बी.कॉम., बी.बी.ए., बी.जे. (पत्रकारिता में स्नातक), बी.लिब. (बैचलर ऑफ लायब्रेरी सांइस), **एम.कॉम.** (वित्तीय प्रबंधन), **एम.बी.ए., एम.बी.ए.एम.एम.** (सामग्री प्रबंधन), एम.ए.आई.सी.एच.ए. (पुरातत्व में स्नातकोत्तर), एम.ए. (राजनीति विज्ञान, समाज शास्त्र, इतिहास, अर्थशास्त्र, भूगोल, हिन्दी साहित्य), **एम.एस.सी**. (रसायन शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित, जन्तु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, आई.टी.)

**डिप्लोमा – डी.बी.ए.** (व्यापार प्रबंधन), **डी.आई.एम.** (प्रबंधन), **डी.सी.ए.** (कम्प्यूटर एप्लीकेशन), **डी.एन.एच.ई.** (पोषण और स्वास्थ शिक्षा), **रामचरित मानस, प्रमाण पत्र- सी.एच.आर.** (मानव अधिकार), **सी.आर.डी.** (ग्रामीण विकास)

अधिक जानकारी के लिए विश्वविद्यालय की वेबसाइट http://mpbou.edu.in तथा क्षेत्रीय केन्द्र भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, सागर, उज्जैन, छिन्दवाड़ा, होशंगाबाद, बड़वानी में सम्पर्क करें

सम्पर्क सूत्र : 0755 - 2494094, 2492105, 2490072

M.P. Madhyam/102962/2021



#### साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

एसईसीएल / जको / विभागाध्यक्ष (योजना / परि.) / 2021 / 28

दिनांक 29.11.202

#### शूचना

साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के जमुना कोतमा क्षेत्रान्तर्गत आमाडांड खुली खदान परियोजना से प्रभावित ग्राम निमहा एवं मझौली तहसील— कोतमा, जिला अनूपपुर (म.प्र.) के समस्त भू स्वामियों को सूचित किया जाता है कि ग्राम निमहा एवं मझौली की अधिग्रहीत भूमि हे एवज में अर्जित भूमि एवं मकान की मुआवजा राशि प्राप्त करने हेतु 05 (इन्द्रप्रसाद माता धनपत पिता राजकुमार पनिका पता निवासी ग्राम खं अन्य ०४) (ग्राम निमहा के ०२, मझौली के ०१ भू–स्वामी, तथा ग्राम मझौली के ०२ मकान स्वामी के प्रस्ताव) भुस्वामियों / मकान स्वामियों . रारा वांछित दस्तावेजों के साथ मुआवजा भुगतान हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं। इन आवेदनों की जांच में नामों विभिन्न दस्तावेजों में भिन्नता पाई गई हैं जिन आवेदनों में भूमि∕मकान के मुआवजा भुगतान की कार्यवाही की जानी है एवं नामों में भिन्नता पाई गई है उनका विवरण निम्नानसार है:-

क्र.	मुआवजा पत्रक का	भूमि दस्तावेजों के अनुसार भू स्वामी का नाम एवं पिता का नाम			ग्राम का नाम	अर्जित खसरा नं.	कुल अर्जित भूमि		मुआवजा भुगतान हेतु	अन्य (विभिन्न दस्तावेंजों में नाम विसंगति एवं अन्य)
	सरल क्र.	एवार्ड के अनुसार	बी—1 के अनुसार	खसरा के अनुसार			हे. में	एकड़ में	प्रस्तावित व्यक्ति का नाम	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	20	घनश्याम प्रसाद माता कलावती कुम्हार पता सा. कोठी	घनश्याम प्रसाद माता कलावती कुम्हार पता सा. कोठी भूमि स्वामी	घनश्याम प्रसाव माता कलावती कुम्हार पता स कोठी भूमि स्वामी	т.	748/2, 895/1	0.405	1.00	घनश्याम प्रसाद प्रजापति पिता खेमराज प्रजापति	घनश्याम प्रसाद का नाम घनश्याम प्रसाद प्रजापति, घनश्याम प्रजापति लिखा है, प्रस्तुत शाप्थपत्र के अनुसार सही नाम घनश्याम प्रसाद प्रजापति है।
2	116	भूपत प्रसाद माता कलावती कुम्हार पता सा. कोठी	भूपत प्रसाद माता कलावती कुम्हार पता सा. कोठी भूमि स्वामी	भूपत प्रसाद माता कलावती कुम्हार पता स कोठी भूमि स्वामी	т.	757	0.429		भूपत प्रसाद प्रजापति पिता खेमराज प्रजापति	भूपत प्रसाद का नाम भूपत प्रसाद प्रजापति, भूपत प्रजापति लिखा है, प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार सही नाम भूपत प्रसाद प्रजापति है।
3	90	पार्वती, दीपा, रमाकान्त पिता देवनारायण ब्रा. सा. देह	पार्वती, दीपा, रमाकान्त पिता देवनारायण जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि स्वामी	पार्वती, दीपा, रमाकान्त पिता देवनारायण जाति ब्रा. पता सा. देह भूमि रचामी	मंझौली	204/1k/1/ 1, 296/1kh	0.159		दीपा दुवे पति दीपक कुमार दुवे	पार्वती का नाम पार्वती उपाध्याय लिखा है, प्रस्तुत रापध्यपत्र के अनुसार सही नाम पार्वती उपाध्याय है। दीपा का नाम दीपा दुवे लिखा है, प्रस्तुत रापध्याय के अनुसार सही नाम दीपा दुवे है। रमाकान्त का नाम रमाकांत मिश्रा लिखा है, प्रस्तुत रापध्याय के अनुसार सही नाम रमाकांत मिश्रा है। देवनारायण बा. का नाम देवनारायण बा. का नाम देवनारायण है। देवनारायण मिश्रा है। देवनारायण सिश्रा है। उपस्ता रापध्याय के अनुसार सही नाम देवनारायण मिश्रा लिखा है, प्रस्तुत रापध्याय के अनुसार सही नाम देवनारायण मिश्रा है।
豖.	मकान के मुआवजा पत्रक का सरल क	हुआवजा मकान स्वामी का मू-स्वामी का नाम 1 गत्रक का नाम नाम न		खसरा नं. जिस पर मकान स्थित है	रकबा (हे. में.)	मुआवजा भुगतान हेतु प्रस्तावित व्यक्ति का नाम			न दस्तावेंजों में अलग—अलग न्य)	

क्र.	मकान के मुआवजा पत्रक का सरल क्र	एवार्ड के अनुसार मकान स्वामी का नाम	एवार्ड के अनुसार भू—स्वामी का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नं. जिस पर मकान स्थित है	रकबा (हे. में.)	मुआवजा भुगतान हेतु प्रस्तावित व्यक्ति का नाम	प्रस्तुत शायथमत्र के अनुसार सही नाम देवनारायण मिश्रा है। अन्य (विभिन्न दस्तावेंजों में अलग—अलग नाम एवं अन्य)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	8	रमाकान्त मिश्रा पिता देवनारायण मिश्रा	पार्वती, दीपा, रमाकान्त पिता देवनारायण ब्रा. सा. देह	मंझौली	296/1kh	0.043	रमाकांत मिश्रा पिता देवनारायण मिश्रा	रमाकान्त मिश्रा का नाम रमाकान्त लिखा है, प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार सही नाम रमाकांत है। देवनारायण मिश्रा का नाम देवनारायण लिखा है, प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार सही नाम देवनारायण मिश्रा है।
2	119	परमात्मा दास पिता लोकन दास महरा	सुभद्री पुत्री नान्हू महरा सा. देह	मंझौली	240/5k/1k	0.044	परमात्मादास पिता लोकनदास महरा	परमात्मा दास का नाम परमात्मा महरा लिखा है, प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार सही नाम परमात्मादास है। लोकनदास महरा का नाम लोकनदास, लोखन लिखा है, प्रस्तुत शपथपत्र के अनुसार सही नाम लोकनदास महरा है।

उपरोक्त व्यक्तियों को भूमि एवं भूमि पर स्थिति परिसम्पत्तियों के मुआवजा भुगतान के संबंध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति है तो वह अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में वैध दस्तावेजों के साथ प्रकाषन तिथि के सात दिनों के अन्दर आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। इसके उपरान्त प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

उप महाप्रबंधक (खनन) / विभागाध्यक्ष (योजना / परि.) जमुना कोतमा क्षेत्र

S-30799/2/21 ● ● ●